



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 19—जनवरी 25, 2013 (पौष 29, 1934)
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 19—JANUARY 25, 2013 (PAUSA 29, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सस्कार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

गृह मंत्रालय

(पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 3 जनवरी 2013

सं. 3/26/2011-प्रशा.--सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के कारण
श्री कुलदीप शर्मा, भा.पु.से. (गुज. 76) महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान
एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 31 दिसम्बर, 2012
अपराह्न से महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय,
नई दिल्ली के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

धनी राम

सहायक निदेशक (प्रशा.)

सं. 3/57/2012-प्रशा.--राष्ट्रपति जी, श्री संजय शिवा, उप महानिरीक्षक
सीमान्त मुख्यालय, सीमा सुरक्षा बल, श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) को
दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए
उप महानिरीक्षक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत
सरकार, के रूप में पीबी-4 ग्रेड पे रु. 8,900/- में नियुक्त करते हैं।

धनी राम

सहायक निदेशक (प्रशा.)

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

सं.-पी.सात-1/2012-मंत्रालय--सूबेदार मेजर (स्टेनो) से सहायक
कमाण्डेन्ट (निजी सचिव) के पद पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप
निम्नलिखित सूबेदार मेजर (स्टेनो) ने प्रत्येक के सामने दर्शाए गए कार्यालय
में दर्शाई गई तिथियों को सहायक कमाण्डेन्ट (निजी सचिव) का कार्यभार
ग्रहण कर लिया है:--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यभार जहां संभाला	कार्यग्रहण करने की तारीख
1.	श्री शिव प्रसाद, सहायक कमाण्डेन्ट (निजी सचिव), ईरला-9322	कार्यालय, विशेष महानिदेशक, मध्य जोन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, कोलकाता	26.11.2012 (पूर्वाह्न)
2.	श्री सहाब सिंह, सहायक कमाण्डेन्ट (निजी सचिव), ईरला-9302	महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली	11.12.2012 (पूर्वाह्न)

सतपाल कपूर, पुलिस उप महानिरीक्षक (संगठन)

महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-03, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

सं. ई-38015(4)/4/तकनीकी त्यागपत्र/एके/2012/कार्मिक. 1/570--सिविल सेवा परीक्षा, 2011 के आधार पर दानिपस सेवा हेतु चयनित होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, श्री अरुण कुमार, सहायक कमान्डेन्ट (कार्यलय), के.ओ.सुब द्वितीय आरक्षित वाहिनी राँची का तकनीकी त्याग-पत्र दिनांक 30.11.2012 (पूर्वाह्न) से स्वीकार करते हैं।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

(भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय)

नई दिल्ली-110124, दिनांक 2 जनवरी 2013

सं. 01-जी.ई. 1/13-2006--श्री राजा राम, भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा के अधिकारी दिनांक 31.12.2012 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

ह./- अपठनीय
सहा. नियंत्रक
महालेखापरीक्षक (कार्मिक)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) जम्मू व कश्मीर

श्रीनगर, दिनांक 16 नवम्बर 2012

सं. प्र-1/ले.प. 11(1)2012-13/2819-2820--प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा श्री सुनील दर, सहायक लेखा-परीक्षा अधिकारी (विशिष्ट पहचान सं. 3070163) जो वर्तमान में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा, चंडीगढ़ में प्रवासी स्टाफ के अस्थाई तौर पर समायोजित हैं को तट निम्न संबंधी नियम के अधीन प्रोफार्मा पदोन्नति अगामी आदेशों तक स्थापन तौर पर लेखा परीक्षा अधिकारी (बी समूह) वेतन बैंड-2, 9,300--34,800/- रु. जो 5,400/- रु. के श्रेणी वेतन सहित है दिनांक 15.11.2012 से प्रदान करना स्वीकृत किया है या जिस दिन से वह चंडीगढ़ में पदभार ग्रहण करे जो भी बाद में हो।

पदोन्नत अधिकारी, भारत सरकार के कार्मिक, जन शिकायतें तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/21-87 स्था. वेतन-1 दिनांक 09.11.1987 के अधीन अपनी पदोन्नति के एक माह के भीतर वेतन नियतन हेतु विकल्प प्रस्तुत करें।

यह आदेश मुख्यालय के कार्यालय पत्र सं.-1310 स्टाफ (नियुक्ति) 340-2011 दिनांक 08.11.2012 के संदर्भ में है।

ह./- अपठनीय
उप महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.), पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 24 दिसम्बर 2012

सं. प्रशा.-1/प्रशा.-1/1038-XXVII/2012-2013/1614--महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल ने सहर्ष श्री अमृत दत्त एवं श्री उत्पलेन्दु मंडल, दोनों सहायक लेखा अधिकारी को लेखा अधिकारी के रूप में रु. 9,300--34,800/- जोड़ ग्रेड पे रु. 5,400/- प्रतिमाह के पे बैंड-II में प्रभावी दिनांक 01.01.2013 (पूर्वाह्न) या उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, जो भी बाद में हो, से पदोन्नत किया है।

उनके तैनाती आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

[प्राधिकार-महालेखाकार का आदेश दिनांक 21.12.2012]

जे. आर. विश्वास
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशा.)

दिनांक 28 दिसम्बर 2012

सं. डब्ल्यू.एम. 1/क्यू-55(जी)खंड/2419-2421--महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित प्रभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I को इस आदेश के द्वारा वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- एवं ग्रेड वेतन रु. 5,400/- में अस्थायी तथा स्थानापन्न क्षमता में वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से वर्तमान डिविजन में अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दिया गया।

नाम

विधान चन्द्र दास (अ.जा.)

उपरोक्त अधिकारी को प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के अंदर एफ.आर. 22(i)(क)(1) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

[प्राधिकार-महालेखाकार का आदेश दिनांक 28.12.2012]

जे. आर. विश्वास
वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं बी.एल.सी.)

महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) का
कार्यालय, ओड़िशा

भुवनेश्वर, दिनांक 4 जनवरी 2013

सं. प्रशा.(लेप-I)-17-2(व.लेपअ)भाग-IV/2961--ज्ञापन सं. प्रशा. I(लेप)/17.2(व.लेपअ)/भाग-IV/2877, दिनांक 31.12.2012 द्वारा सूचित का.आ.ग. 1111 दिनांक 31.12.2012 के अनुपालन में निम्नलिखित लेखापरीक्षा अधिकारियों ने पदोन्नति होने पर उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए तिथि से वेतन बैंड-3 (रु. 15,600--39,100/-) एवं सादृश्य ग्रेड

वेतन रु. 5,400/- पर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए हैं:--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
	सर्वश्री/श्रीमति/कु.	
1.	प्रदीप कुमार मिश्र	01.01.2013 (पूर्वाह्न)
2.	टी. सुब्बा राव शर्मा	04.01.2013 (पूर्वाह्न)
3.	बैकुण्ठ चरण साहू	01.01.2013 (पूर्वाह्न)
4.	सुभाष चन्द्र सामल	01.01.2013 (पूर्वाह्न)
5.	चित्तरंजन महान्ति-I	01.01.2013 (पूर्वाह्न)
6.	द्विती कृष्ण सारंगी	01.01.2013 (पूर्वाह्न)
7.	प्रद्युम्न कुमार मिश्र	01.01.2013 (पूर्वाह्न)
8.	अनन्त सन्धिविग्रह	01.01.2013 (पूर्वाह्न)
9.	त्रिनाथ साहू	01.01.2013 (पूर्वाह्न)
10.	सुधांशु शेखर दास	01.01.2013 (पूर्वाह्न)
11.	भगवान नायक	01.01.2013 (पूर्वाह्न)
12.	रवि शंकर बिसोई	01.01.2013 (पूर्वाह्न)
13.	बसंत कुमार प्रधान	01.01.2013 (पूर्वाह्न)
14.	गदाधर सेनापति	01.01.2013 (पूर्वाह्न)
15.	बुधौराम नायक	01.01.2013 (पूर्वाह्न)
16.	विष्णु चरण बेहेरा	01.01.2013 (पूर्वाह्न)
17.	गोविन्द चन्द्र साहू	01.01.2013 (पूर्वाह्न)
18.	भागीरथी महाराणा	01.01.2013 (पूर्वाह्न)
19.	एल जुधिष्ठिर	01.01.2013 (पूर्वाह्न)

सुधांशु शेखर दास
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन
(सा.सा.क्षे.प.)

रक्षा मंत्रालय

(आयुध निर्माणी बोर्ड)

कोलकाता, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

सं. 0173/राजपत्र अधिसूचना/मुख्य./जी.बी.--महानिदेशक आयुध निर्माणियां/अध्यक्ष, आयुध निर्माणी बोर्ड कोलकाता ने निम्नलिखित

पदोन्नति को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथियों से अनुमोदित किया है:--

क्र. सं.	नाम	पद से	पद पर	ए.एस.ओ. में पदोन्नति की तिथि
	सर्वश्री/श्रीमती			
1.	शीला चक्रवर्ती	सहायक	सहायक स्टाफ अधिकारी	01.12.2012
2.	दीपा पाल	सहायक	सहायक स्टाफ अधिकारी	01.12.2012
3.	स्वपन कान्ति दास	सहायक	सहायक स्टाफ अधिकारी	01.12.2012

2. उपर्युक्त दर्शाए गए प्रत्येक अधिकारियों ने अपने नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से उच्च कार्यभार ग्रहण किया है।

काजल कुमार विश्वास
स्टाफ अधिकारी/मुख्या. एवं कार्यालय प्रमुख
कृते महानिदेशक

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171004, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

सं. 5/1/2012-सी.पी.आई.--नवम्बर, 2012 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) 1 अंक बढ़ कर 218 (दो सौ अठारह) अंकों के स्तर पर रहा।

एस. एस. नेगी
निदेशक

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-16, दिनांक 6 दिसम्बर 2012

सं. 21014/एसपी/ए-32013/4-निदे. (वेधन) (चयन श्रेणी)/98/19बी--राष्ट्रपति जी, विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर श्री अनूप कुमार जौहरी, निदेशक (वेधन), को निदेशक (वेधन) के पद पर अकार्यात्मक चयन श्रेणी में रु. 8,700/- के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-4; रु. 37,400--67,000/- में 01.03.2010 से नियुक्त करते हैं। माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, लखनऊ पीठ में लंबित, ओए संख्या 23/2011 के परिणाम के अध्याधीन, उन्हें वेधन प्रभाग, भा.भू.स. उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ भा.भू.स. में तैनात/प्रतिधारित किया जाता है।

(i) निदेशक (वेधन), अकार्यात्मक चयन श्रेणी में उनका वेतन नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा। फिर भी अधिकारी मूलभूत नियम-22 (1)(अ)(2) के अंतर्गत अकार्यात्मक चयन श्रेणी के पद पर यन्त्रोल्लिखित नियुक्ति की तिथि पर से अथवा निदेशक (वेधन) के पद पर वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर किया जाना है।

(ii) निदेशक (वेधन) की श्रेणी में उनकी पारस्परिक-वरिष्ठता चयन श्रेणी में नियुक्ति के परिणामस्वरूप परिवर्तित नहीं होगी।

के. ए. इब्राहिम कुंजु
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

दिनांक 13 दिसम्बर 2012

सं. 22082/एसपी/ए-32013/2-निदे. (भूभौतिकी)/2009-10/19बी--
राष्ट्रपति जी, विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित
वरिष्ठ भूभौतिकीविदों को इसी विभाग में अधीक्षण भूभौतिकीविद् के पद
पर पदोन्नति पर रु. 7,600/- के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 : रु. 15,600--
39,100/- के वेतनमान में प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि से प्रभावित
आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	अधीक्षण भूभौतिकीविद् के पद पर पदोन्नति की तिथि
1.	श्री विनोद कुमार	22.06.2012 (पूर्वाह्न)
2.	श्री एम. रजनी कुमार	22.06.2012 (पूर्वाह्न)

अधीक्षण भूभौतिकीविद् के पद पर उनका वेतन मूलभूत नियम-22 (I)(a)(1) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर किया जाना है।

के. ए. इब्राहिम कुंजु
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

दिनांक 17 दिसम्बर 2012

सं. 22159/एसपी/ए-32013/2-निदे. (भूभौतिकी)/2009-10/19बी--
राष्ट्रपति जी, विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित
वरिष्ठ भूभौतिकीविदों को इसी विभाग में अधीक्षण भूभौतिकीविद् के पद
पर पदोन्नति पर रु. 7,600/- के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 : रु. 15,600--

39,100/- के वेतनमान में प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि से प्रभावित
आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	अधीक्षण भूभौतिकीविद् के पद पर पदोन्नति की तिथि
1.	श्री सी. बी. के. शास्त्री	22.06.2012 (पूर्वाह्न)
2.	श्री बलराम दास	22.06.2012 (पूर्वाह्न)
3.	श्री नरेंद्र सिंह	22.06.2012 (पूर्वाह्न)
4.	श्री रमेश एस. आचार्य	22.06.2012 (अपराह्न)
5.	डॉ. सगीना राम	25.06.2012 (पूर्वाह्न)
6.	श्री जे. वी. रामा राव	27.06.2012 (अपराह्न)
7.	श्री रमा कांत मिश्रा	09.07.2012 (पूर्वाह्न)
8.	श्री एम. बालाकृष्णन	16.07.2012 (पूर्वाह्न)

अधीक्षण भूभौतिकीविद् के पद पर उनका वेतन मूलभूत नियम-22 (I)(a)(1) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर किया जाना है।

के. ए. इब्राहिम कुंजु
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-85, दिनांक 3 जनवरी 2013

सं. पीडी/11(1)/2012-भर्ती-III/13/195--नियंत्रक, भाभा परमाणु
अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती शशी श्रीधर, सहायक को दिनांक 23.07.2012
(पूर्वाह्न) से 24.12.2012 (अपराह्न) तक रु. 9,300--34,800/- के
वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ
आधार पर सहायक कर्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

(भारी पानी बोर्ड)

मुंबई-400094, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

सं. भापाबो/भर्ती/4(15)/2012/802--राष्ट्रपति, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय)/भारी पानी संयंत्र (थल/कोय/बड़ौदा/तूतीकोरिन/मणुगुरु/तालचेर)
के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सामने दर्शाये गये पद पर तथा उनके सामने दर्शाये गये दिनांक के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी
कार्यालय/संयंत्र में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। पदों के वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन भी नीचे दर्शाये गये हैं :--

क्र. सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड	समिति की सिफारिश	कार्यालय/संयंत्र	वर्तमान ग्रेड में पदोन्नति की तारीख
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री				
1.	रहबर हुसैन	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	थल	01.07.2011

1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री				
2.	धीरेन्द्र सिंह	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	भापाबो (कॅ.का.)	01.07.2011
3.	प्रदीप जैन	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	भापाबो (कॅ.का.)	01.07.2011
4.	विजय कुमार जैन	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	कोट	01.07.2011
5.	विष्णु कुमार गौतम	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	कोट	01.07.2011
6.	दिलीप कुमार चटर्जी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	कोट	01.07.2011
7.	राजेन्द्र प्रसाद राम	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	कोट	01.07.2011
8.	अरूण कुमार चौहान	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	कोट	01.07.2011
9.	राजीव शर्मा	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	कोट	01.07.2011
10.	माँगी लाल परिहार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	कोट	01.07.2011
11.	रमेश चन्द महावर	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	कोट	01.07.2011
12.	रामेश्वर प्रसाद तिवारी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	कोट	01.07.2011
13.	श्रीमती रोमा गर्ग	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	कोट	01.07.2011
14.	अशोक कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	कोट	01.07.2011
15.	दौथी राजा भरत	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	कोट	01.07.2011
16.	श्रीमती मान्या वाधवानी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	कोट	12.07.2011
17.	आदित्य प्रकाश	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	कोट	01.07.2011
18.	हनुमान प्रसाद मीणा	वैज्ञानिक सहायक/ई	तकनीकी अधिकारी/डी	कोट	07.07.2011
19.	श्रीमती मौसमी शुक्ला	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	कोट	01.07.2011
20.	नीतेश परसाई	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	बड़ौदा	01.07.2011
21.	विजय चटर्जी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	बड़ौदा	01.07.2011
22.	अनुराग दीक्षित	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	बड़ौदा	01.07.2011
23.	विवेकानंद रामदास पाटिल	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	बड़ौदा	01.07.2011
24.	शिव प्रसाद दत्ता	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	बड़ौदा	11.07.2011
25.	डॉ. बरनादेत् बारा	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	तालचेर	01.07.2011
26.	जगन्नाथ साहु	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	तालचेर	01.07.2011
27.	सुसनजित दास	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	तालचेर	01.07.2011
28.	बिद्युत कुमार दत्ता	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	तालचेर	01.07.2011
29.	रमाकांत साहु	वैज्ञानिक अधिकारी/एसबी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	तालचेर	07.07.2011
30.	मधुसुदन धर	तकनीशियन/जी	तकनीकी अधिकारी/सी	तालचेर	01.07.2011
31.	विलियम स्टीफन जेम्स दुरै पाण्डियन	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	तालचेर	01.07.2011
32.	मानिकम गुणसीलन राजकुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	तूतीकोरिन	01.07.2011

1	2	3	4	5	6
33.	मानप्पा तलवार	वैज्ञानिक सहायक/ई	तकनीकी अधिकारी/सी	तूतीकोरिन	01.07.2011
34.	डॉ. (श्रीमती) टी. सांताश्री	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	तूतीकोरिन	01.07.2011
35.	पि. ए. वि. क्रिष्ण	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	मणुगुरू	01.07.2011
36.	देवेन्द्र कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	मणुगुरू	01.07.2011
37.	कर्नाट वीरभद्रम	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	मणुगुरू	01.07.2011
38.	चंदा मोहन	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	मणुगुरू	01.07.2011
39.	केतिनीडि वीरा वेन्काट वल्लभरावु	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	मणुगुरू	01.07.2011
40.	एस. श्रीनिवास राजु	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	मणुगुरू	01.07.2011
41.	एम. चैतन्या	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	मणुगुरू	01.07.2011
42.	मोहन कुमारी टी.	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	मणुगुरू	01.07.2011
43.	यस्. चिदंबरम्	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	मणुगुरू	01.07.2011
44.	मुडयिलल् पिशारत् विनोद्	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	मणुगुरू	01.07.2011
45.	अरूण कुमार महापात्र	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	मणुगुरू	01.07.2011
46.	शशि कुमार शेट्टि	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	मणुगुरू	01.07.2011
47.	मालोत सैदा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	मणुगुरू	01.07.2011
48.	बालगा रामबाबू	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	मणुगुरू	01.07.2011
49.	साका सूर्य राव	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	मणुगुरू	01.07.2011
50.	कोम्मूला मल्लेशम	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	मणुगुरू	01.07.2011
51.	डेनवर लोपस	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	मणुगुरू	01.07.2011
52.	आनन्द स्वारूप ओम	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	मणुगुरू	01.07.2011
53.	सुशील कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	मणुगुरू	01.07.2011
54.	एन. उदय भास्कर	वैज्ञानिक अधिकारी/एसबी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	मणुगुरू	01.07.2011
55.	प्रसन्ना वेंकटरमणन	वैज्ञानिक अधिकारी/एसबी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	मणुगुरू	01.07.2011
56.	बोलीशेट्टी श्रीनिवास राव	वैज्ञानिक अधिकारी/एसबी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	मणुगुरू	01.07.2011
57.	ए. श्रीनिवास राव	वैज्ञानिक अधिकारी/एसबी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	मणुगुरू	01.07.2011
58.	चिट्टाल सत्यनारायण	वैज्ञानिक सहायक/डी	तकनीकी अधिकारी/सी	मणुगुरू	01.07.2011
59.	दास्यं नागेश्वर राव	वैज्ञानिक सहायक/डी	तकनीकी अधिकारी/सी	मणुगुरू	01.07.2011
60.	चे. संजीवि कुमार	वैज्ञानिक सहायक/डी	तकनीकी अधिकारी/सी	मणुगुरू	01.07.2011

पद	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
वैज्ञानिक अधिकारी/ई	पीबी (3) रु. 15,600--39,100/-	7,600/-
वैज्ञानिक अधिकारी/डी	पीबी (3) रु. 15,600--39,100/-	6,600/-
वैज्ञानिक अधिकारी/सी	पीबी (3) रु. 15,600--39,100/-	5,400/-

उपरोक्त अधिकारियों ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित दिनांक के पूर्वाह्न से अपने निचले पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

के. एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी-III

सं. भापाबो/भर्ती/4 (13)/2012/803--राष्ट्रपति, भारी पानी संयंत्र (कोटा/मणुगुरु/तालचेर) के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड "एफ" (वेतन बैंड रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 8,700/-) को उसी कार्यालय/संयंत्र में उनके सामने दर्शाये गये दिनांक के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक रु. 8,900/- के ग्रेड वेतन सहित उसी वेतन बैंड में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड "जी" के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	भापासं	पदोन्नत ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
सर्वश्री			
1.	सुकुमार भौमिक	भापासं (कोटा)	01.07.2012
2.	प्रहलाद कुमार पारीक	भापासं (कोटा)	01.07.2012
3.	अनिल कुमार	भापासं (कोटा)	01.07.2012
4.	रामाश्रय नाथ पाण्डेय	भापासं (कोटा)	01.07.2012
5.	सरस सेठ	भापासं (कोटा)	01.07.2012
6.	बाका वेंकटेश्वर राव	भापासं (कोटा)	01.07.2012
7.	के. रामुलु	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2012
8.	पी. सतीष	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2012
9.	विश्वनाथ जी.	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2012
10.	सौमेन्द्र कुमार मिश्र	भापासं (तालचेर)	01.07.2012

उपरोक्त अधिकारियों के प्रत्येक ने सामने उल्लिखित दिनांक के पूर्वाह्न से अपने निचले पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

के. एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी-III

सं. भापाबो/भर्ती/4 (14)/2012/804--राष्ट्रपति, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय)/भारी पानी संयंत्र (कोटा/बड़ौदा/मणुगुरु/तूतीकोरिन/तालचेर) के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड "ई"

(वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 7,600/-) को उसी कार्यालय/संयंत्र में उनके सामने दर्शाये गये दिनांक के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 8,700/- में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड "एफ" के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	भापाबो/भापासं	पदोन्नत ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
सर्वश्री			
1.	अजित रमेश दुसाने	भापासं (कै. का.)	01.07.2012
2.	लक्ष्मी नरसिंहन रामासामी	भापासं (कै. का.)	01.07.2012
3.	ईश्वर भिका पवार	भापासं (कै. का.)	01.07.2012
4.	हसमुखभाई मुलदेवभाई मेवाडा	भापासं (कोटा)	01.07.2012
5.	श्याम नारायण सिंह यादव	भापासं (कोटा)	01.07.2012
6.	जीत नारायण सिंह	भापासं (कोटा)	01.07.2012
7.	प्रकाश चन्द्र पाण्डेय	भापासं (कोटा)	01.07.2012
8.	काजोर मल बैरवा	भापासं (कोटा)	01.07.2012
9.	आनन्द कुमार शर्मा	भापासं (कोटा)	01.07.2012
10.	मनोज कुमार बाजपेयी	भापासं (कोटा)	01.07.2012
11.	जी. मुरलीधरन	भापासं (बड़ौदा)	01.07.2012
12.	चंद्रकान्त शंकरलाल पंचाल	भापासं (बड़ौदा)	01.07.2012
13.	पुश्वराज कुमावत	भापासं (बड़ौदा)	01.07.2012
14.	तंगपाण्डियन मोहन	भापासं (तूतीकोरिन)	01.07.2012
15.	नागराजन श्रीधर	भापासं (तूतीकोरिन)	07.07.2012
16.	कैलाशनाथा दीक्षितर शंकरन	भापासं (तूतीकोरिन)	01.07.2012

1	2	3	4
17.	अब्दुल पारिथ अब्बास	भापासं (तूतीकोरिन)	01.07.2012
18.	मानस रंजन साहु	भापासं (तालचेर)	01.07.2012
19.	के. एस. एन. बाबू	भापासं (मणुगुरू)	01.07.2012
20.	डॉ. बी. द्वारकानाथ	भापासं (मणुगुरू)	01.07.2012
21.	गोपाल कृष्ण जौहरी	भापासं (मणुगुरू)	01.07.2012
22.	बिद्यापति पात्र	भापासं (मणुगुरू)	01.07.2012
23.	आशुतोष कौशिक	भापासं (मणुगुरू)	01.07.2012
24.	मुन्नलूरु उपेन्द्र	भापासं (मणुगुरू)	01.07.2012

उपरोक्त अधिकारियों ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित दिनांक के पूर्वाह्न से अपने निचले पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

के. एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी-III

इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र

कल्पाक्कम-603102, दिनांक 20 दिसम्बर 2012

सं. इंगांपअर्के/11013/डीजीएफएस-10/2012-भर्ती/1452--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पाक्कम में श्री सी. विष्णु को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'सी' के रूप में वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- एवं ग्रेड वेतन रु. 5,400/- सहित प्रारंभिक वेतन रु. 21,000/- में दिनांक 01.08.2012 के पूर्वाह्न से अस्थायी क्षमता पर अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं।

ओ. के. सत्यन्
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक 27 नवम्बर 2012

सं. पखनि-4/1/2011-भर्ती/1878--राष्ट्रपति महोदय, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के निम्नलिखित व्यक्तियों को दिनांक 01 अगस्त, 2012 के पूर्वाह्न से वैज्ञानिक अधिकारी "सी" के रूप में अस्थायी हैसियत में अगले आदेशों तक पे-बैंड पी.बी.-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 5,400/- पर नियुक्त करते हैं:--

क्रमांक	टीएसओ के नाम
1.	श्री अभिक पुरोहित
2.	श्री जुनैद अहमद
3.	श्री रवि प्रकाश तिवारी
4.	श्री समिरन बरमन
5.	कु. नबनीता मिश्र

1	2
6.	कु. स्वाति पंत
7.	श्री सुबोध प्रकाश उपाध्याय
8.	श्री सोमनाथ बंद्योपाध्याय
9.	श्री सात्यकी सामंत
10.	श्री दिबाकर घोष
11.	श्री मोहम्मद आलम
12.	श्री महेश्वर राव गोल्ले
13.	श्री हर्ष रघुवंशी
14.	श्री तन्मय रंजन भाँजा
15.	श्री पसुपुलेटी वेंकटेश
16.	श्री रोशन अली शेख
17.	श्री राहुल कुमार सिंह
18.	श्री वंशी कृष्ण अन्नगि
19.	श्री इंद्रेश कुमार
20.	श्री सत्यम

ए. एस. लक्ष्मण राव
मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

सं. पखनि-1/4/2010-भर्ती/1879--राष्ट्रपति महोदय, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग के निम्नलिखित व्यक्ति को वैज्ञानिक अधिकारी "सी" के रूप में अस्थायी हैसियत में अगले आदेशों तक वेतन-बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- पर नियुक्त करते हैं:--

नाम	कार्यग्रहण तिथि
श्री पट्टिपाका नवीन कुमार	01.08.2012 (पूर्वाह्न)
ए. एस. लक्ष्मण राव	मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

कम्पनी मामले मंत्रालय

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मार्स फाईनेन्सियल एडवाइजरी सर्विसेस प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 2 जनवरी 2013

सं. 560(3)/23815--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस

तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मार्स फाईनेन्सियल एडवाइजरी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चंडीगढ़, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

सं. आर.ओ.सी./560/5/2000--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों का नाम काट दिया गया है।

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनियों का नाम
1	2	3
1.	32996	मैसर्स रेवोलियुशन एच आर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
2.	30393	मैसर्स फोबज फोटो बाजार इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड
3.	31469	मैसर्स आरविट इम्मीग्रेशन एण्ड ऐजुकेशन कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
4.	21852	मैसर्स कमलदीप प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड
5.	22456	मैसर्स सीता बिल्ड-टेक प्राईवेट लिमिटेड
6.	31198	मैसर्स यू. बी. फैशनज़ प्राईवेट लिमिटेड
7.	32317	मैसर्स तोरो स्टील ग्लास प्राईवेट लिमिटेड
8.	32488	मैसर्स के. सी. इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड

एन. वी. गजानन
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोलकाता-700020, दिनांक 02 जनवरी 2013

सं. क.र./प.ब./560/एफटीई/2012--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती

है कि निम्नलिखित संलग्न 21 (इक्कीस) कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	063099	मैसर्स एल. आर. इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
2.	164641	मैसर्स विन हेयर एजेंसी प्राईवेट लिमिटेड
3.	163493	मैसर्स ट्रोप कन्सलटेन्सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
4.	088571	मैसर्स आशीर्वाद फाइबर्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	141548	मैसर्स परपल एजेंसीस प्राईवेट लिमिटेड
6.	141687	मैसर्स लवदल एजेंसीस प्राईवेट लिमिटेड
7.	052859	मैसर्स पायरोमेट टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
8.	136930	मैसर्स सिंह श्रेष्ठ कन्सल्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
9.	124847	मैसर्स पुर्बाचल बाइयो-टेक प्राईवेट लिमिटेड
10.	123092	मैसर्स गोल्डमाइन कोमोर्टेड प्राईवेट लिमिटेड
11.	140577	मैसर्स वी एम वी फोरेक्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	125396	मैसर्स स्ट्रूलिंग इंजीनियर्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
13.	097237	मैसर्स ए. पी. यू. के. इंडिया कॉम्प ऐड प्राईवेट लिमिटेड
14.	107920	मैसर्स मेगासिटी पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
15.	095379	मैसर्स कैडी एडवाइजर प्राईवेट लिमिटेड
16.	134923	मैसर्स भव्य मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	103097	मैसर्स मीराकल वाटर फिल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	152487	मैसर्स मेटेराइट सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	105372	मैसर्स एन. आर. डी. कामर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
20.	150536	मैसर्स एस. सी. बी. नेटवर्क मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
21.	127255	मैसर्स कॉन्वर्सो ऑफसोर बीपीओ सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड

डी. एन. चौधरी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एक्वा चार्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 28 दिसम्बर 2012

सं. 1342--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एक्वा

चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

सुधीर लीलाधर फाये
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कटक-753001, दिनांक 1 जनवरी 2013

सं. आर.ओ.सी./560(3)/945--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किये गये तो रजिस्टर से काट दिये जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	00125	मैसर्स बी. मोहन्ती एण्ड कं. प्राइवेट लिमिटेड
2.	08687	मैसर्स आर्यप्रवा कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
3.	09952	मैसर्स महावीर एलाईड कन्सट्रक्शन एण्ड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
4.	10009	मैसर्स लोकतन्त्र वेब सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
5.	12287	मैसर्स बनजारा एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
6.	12290	मैसर्स अर्थ केयर ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
7.	12295	मैसर्स चन्द्रामा आईटी डेवलपमेंट एण्ड कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
8.	12299	मैसर्स वारसिया स्टील लिमिटेड
9.	12300	मैसर्स ऑक्यगन निर्माण प्राइवेट लिमिटेड
10.	12303	मैसर्स नन्दीघोष फाईनेन्शियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
11.	12306	मैसर्स एनीमैक्स मल्टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
12.	12312	मैसर्स सिमो एन्टरप्राइसिस प्राइवेट लिमिटेड
13.	12315	मैसर्स मॉस इन्फो-बीजन प्राइवेट लिमिटेड
14.	12319	मैसर्स नैक्स्ट ब्रेन ट्रेडलिंग प्राइवेट लिमिटेड
15.	12321	मैसर्स बिद्याललिता इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
16.	12327	मैसर्स गेम चेंजर्स प्राइवेट लिमिटेड
17.	12329	मैसर्स होटल कमलेश प्राइवेट लिमिटेड
18.	12331	मैसर्स सागरिका माईन्स एण्ड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
19.	12334	मैसर्स एमएस (ओडिशा) सिंडीकेट प्राइवेट लिमिटेड
20.	12338	मैसर्स एसजी रीयलकॉन प्राइवेट लिमिटेड
21.	12345	मैसर्स सरचीस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
22.	12348	मैसर्स मां सन्तोषी लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
23.	12349	मैसर्स सिगमुण्ड इन्फ्राटेक लिमिटेड
24.	12351	मैसर्स बैटर टेलिमेडीसिन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
25.	12355	मैसर्स बटरफ्लाई मैनेजमेन्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
26.	12368	मैसर्स प्रभुजी मल्टीप्लैक्स प्राइवेट लिमिटेड
27.	12375	मैसर्स हीरा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड
28.	12377	मैसर्स उत्कल ट्रेवल्स एण्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
29.	12379	मैसर्स स्मार्ट इमेज क्रिएटिव टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
30.	12380	मैसर्स गायत्री माईन्स एण्ड मेटैलक्स प्राइवेट लिमिटेड
31.	12382	मैसर्स मातृकृपा इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
32.	12383	मैसर्स फोरेक्स ए 2 जेड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
33.	12385	मैसर्स शेर-ए-हिन्द इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
34.	12392	मैसर्स हर्षवर्धन फौरो एलॉयज लिमिटेड

बी. मिश्रा

कम्पनी रजिस्ट्रार तथा शासकीय समापक
ओडिशा

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
BUREAU OF POLICE RESEARCH & DEVELOPMENT

New Delhi-110003, the 3rd January 2013

No. 3/26/2011-Admn.—Consequent upon his superannuation from service, Sh. Kuldip Sharma, IPS (GJ : 76), Director General, Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, Government of India has relinquished the charge of Director General, Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, New Delhi with effect from the afternoon of 31st December, 2012.

DHANI RAM
Asstt. Dir. (Admn.)

No. 3/57/2012-Admn.—The President of India is pleased to appoint Sh. Sanjay Shiva, Deputy Inspector General, Frontier Headquarters, BSF, Srinagar (J&K) as Deputy Inspector General, Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, Government of India in the Scale of Pay in PB-4 with Grade Pay Rs. 8,900/- with effect from the forenoon of 26th December, 2012 for a period of three years.

DHANI RAM
Asstt. Dir. (Admn.)

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 31st December 2012

No. P.VII-1/2012-Min—Consequent on their promotion to the post of Assistant Commandant (Private Secretary), the following Subedar Major (Steno) have taken over charge as Assistant Commandant (Private Secretary) in the Offices and on the dates as mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Office where charge taken over	Date of taking over charge
1.	Shri Sheo Prasad, Assistant Commandant (Private Secretary) (IRLA-9322)	O/o Special DG, Central Reserve Police Force, Kolkata	26.11.2012 (FN)
2.	Shri Sahab Singh, Assistant Commandant (Private Secretary) (IRLA-9302)	Directorate General, Central Reserve Police Force, New Delhi	11.12.2012 (FN)

SATPAL KAPOOR
DIGP (Organisation)

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-03, the 31st December 2012

No. E-38015(4)/4/Tech Resign/AK/2012/Pers.I/570—Consequent upon his selection for DANIPS Service on the basis of Civil Services Examination, 2011, the President is

pleased to accept the technical resignation of Shri Avnish Kumar, Assistant Commandant (Exe) of CISF 2nd Res Bn Ranchi with effect from 30.11.2012 (FN).

Sd/-ILLEGIBLE
Dir. Gen./CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR
GENERAL OF INDIA

New Delhi-110124, the 2nd January 2013

No. 26-GE-I/13-2006—Shri Raja Ram, IA&AS has retired on superannuation wef 31.12.2012 (AN) from Government Service.

Sd/-ILLEGIBLE
Asstt. Comptroller &
Auditor General (P)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(AUDIT), J&K

Srinagar, the 16th November 2012

No. Admn.-I/Audit/1(1)/2012-13/2819-2820—The Principal Accountant General (Audit), J&K, has been pleased to order promotion of Shri Sunil Dhar, Assistant Audit Officer (Unique ID No. JKGWA3070163), presently with Principal Accountant General (Audit), Haryana, Chandigarh against temporary adjustment of migrant staff, under Next Below Rule as Audit Officer (Group 'B') in an officiating capacity in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- carrying Grade Pay of Rs. 5,400/- w.e.f. 15.11.2012 of the date of taking over charge of the post at Chandigarh, whichever is later.

The promotee may exercise option for fixation of pay in terms of Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 1/2/87-Estt Pay-I, dated 09.11.1987 within one month of the date of his promotion.

This has reference to the Hqrs. Office letter No. 1310-Staff (Apptt.)/340-2011 dated 08.11.2012.

SD/-ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(A&E), WEST BENGAL

Kolkata-700001, the 24th December 2012

No. Admn.I/Admn.I/1038-XXVII/2012-2013/1614—The Accountant General (A&E), West Bengal is pleased to promote Shri Amrita Dutta and Shri Utpalendu Mondal both Assistant Accounts Officers as Accounts Officers in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of

Rs. 5,400/- per month with effect from 01.01.2013 (FN) or the date of their taking over the charge, whichever is later.

Their posting order will be issued separately.

[Authority : A.G.'s order dated 21.12.2012]

J. R. BISWAS
Sr. Dy. Accountant Gen. (Admn.)

The 28th December 2012

No. WM-I/Q-55 (G)/Vol.III/2419-2421—Under the order of the Accountant General (A&E), West Bengal the following Divisional Accounts Officer Gr-I is hereby promoted as Senior Divisional Accounts Officer in the Pay Band-3 : Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay Rs. 5,400/- in temporary and officiating capacity with effect from the date of assumption of charges as Sr. D.A.O. in the present Division till further order. He will be on probation for a period of 2 (two) years from the date of promotion.

Such promotion is in the interest of the public service.

Sri Bidhan Chandra Das (SC)

The above named Officer may submit his option under F.R. 22(I)(a)(i) within one month from the date of taking over charge as Senior Divisional Accounts Officer for fixation of pay on promotion.

(Authority : A.G.'s order dt 28.12.2012)

J. R. BISWAS
Sr. Dy. Accountant Gen. (A/cs. & VLC)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(GENERAL & SOCIAL SECTOR AUDIT)
ODISHA

Bhubaneswar, the 4th January 2013

No. Admn. (G&SSA)17-2/Vol.-IV/Sr. AO/2961—In pursuance of OOC No. 1111 dated 31.12.2012 communicated vide Memo No. Admn. (G&SSA)17-2/Vol-IV(Sr. AO)/2877 dated 31.12.2012 the following Audit Officers on promotion have assumed charge as Sr. Audit Officer in Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/- with corresponding Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the date indicated against each :—

Sl. No.	Name	Date of assuming charge as Sr. AO
1	2	3
	S/Shri/Smt./Kum.	
1.	Pradipta Kumar Mishra	01.01.2013 (FN)
2.	T. Subba Rao Sharma	04.01.2013 (FN)
3.	Baikuntha Charan Sahu	01.01.2013 (FN)

1	2	3
	S/Shri/Smt./Kum.	
4.	Subhash Chandra Samal	01.01.2013 (FN)
5.	Chittaranjan Mohanty-I	01.01.2013 (FN)
6.	Dwiti Krishna Sarangi	01.01.2013 (FN)
7.	Pradyumna Kumar Mishra	01.01.2013 (FN)
8.	Ananta Sandhibigraha	01.01.2013 (FN)
9.	Trinath Sahoo	01.01.2013 (FN)
10.	Sudhansu Sekhar Das	01.01.2013 (FN)
11.	Bhagaban Nayak	01.01.2013 (FN)
12.	Rabi Sankar Bisoyi	01.01.2013 (FN)
13.	Basant Kumar Pradhan	01.01.2013 (FN)
14.	Gadadhar Senapaty	01.01.2013 (FN)
15.	Budhiram Naik	01.01.2013 (FN)
16.	Bishnu Charan Behera	01.01.2013 (FN)
17.	Gobinda Chandra Sahoo	01.01.2013 (FN)
18.	Bhagirathi Maharana	01.01.2013 (FN)
19.	L. Judhisthir	01.01.2013 (FN)

S. S. DAS
Sr. Audit Officer/Admn. (G&SSA)

MINISTRY OF DEFENCE
(ORDNANCE FACTORY BOARD)

Kolkata, the 7th December 2012

No. 0173/Gazette Notification/HQ/GB—Director General Ordnance Factories & Chairman, Ordnance Factory Board, Kolkata, has approved the following promotions with effect from the dates, as specified against the name of the individuals :—

Sl. No.	Name	From	To	Date of promotion to ASO
	S/Shri/Smt./Kum.			
1.	Sila Chakraborty	Assistant	Assistant Staff Officer	01.12.2012
2.	Dipa Pal	Assistant	Assistant Staff Officer	01.12.2012
3.	Swapan Kanti Das	Assistant	Assistant Staff Officer	01.12.2012

2. The above individuals assumed higher charges of duties with effect from the date mentioned against each.

KAJAL KR. BISWAS
Staff Officer/HQrs. & Head of Office
for Director General

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
(LABOUR BUREAU)

Shimla-171004, the 31st December 2012

No. 5/1/2012-C.P.I.—All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 2001=100 increased by 1 point and stood at 218 (two hundred eighteen) for the month of November, 2012.

S. S. NEGI
Director

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-16, the 6th December 2012

No. 21014/SP/A-32013/4-Dir. (D) (SG)/98/19B—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Sri Anoop Kumar Johari, Director (Drilling), to the post of Director (Drilling) Non-Functional Selection Grade in the Scale of Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- in the Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from 01.03.2010. He is posted/retained at Drilling Division, GSI, NR, Lucknow, subject to the outcome of OA No. 23/2011, pending before Hon'ble CAT, Lucknow Bench.

(i) His pay in Director (Drilling), Non-Functional Selection Grade will be fixed in accordance with the rules. The officer may, however, exercise option for fixation of his pay under FR-22(I)(a) (2) with effect from the date of appointment to the post of Non-Functional Selection Grade as mentioned above or with effect from the date of increment in the post of Director (Drilling). The option for fixation of pay is to be exercised within one month from the date of issue of this Notification.

(ii) His inter-se-seniority in the grade of Director (Drilling) will not change as a result of appointment to Selection Grade.

K. A. EBRAHIM KUNJU
Sr. Admn. Officer
for Dir. Gen.

The 13th December 2012

No. 22082/SP/A-32013/2-Dir.(Geop.)/2009-10/19B—On the recommendations of Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint the following Senior Geophysicists on promotion to the post of Superintending Geophysicist in the same department in the Pay Band-3 : Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from the dates mentioned against each of them :—

Sl. No.	Name	Date of promotion to the post of Superintending Geophysicist
1.	Shri Vinod Kumar	22.06.2012 (F.N.)
2.	Shri M. Rajani Kumar	22.06.2012 (F.N.)

Their pay in the post of Senior Geophysicist will be fixed in accordance with the provisions under FR-22(I) (a) (1). The option for fixation of pay is to be exercised within one month from the date of issue of this Notification.

K. A. EBRAHIM KUNJU
Sr. Admn. Officer
for Dir. Gen.

Kolkata-700016, the 17th December 2012

No. 22159/ST/A-32013/2-Dir.(Geop.)/2009-10/19B—On the recommendations of Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint the following Senior Geophysicists on promotion to the post of Superintending Geophysicist in the same department in the Pay Band-3 : Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from the dates mentioned against each of them :—

Sl. No.	Name	Date of promotion to the post of Superintending Geophysicist
1.	Shri C. B. K. Sastry	22.06.2012 (F.N.)
2.	Shri Balaram Das	22.06.2012 (F.N.)
3.	Shri Narendra Singh	22.06.2012 (F.N.)
4.	Shri Ramesh S. Acharya	22.06.2012 (A.N.)
5.	Dr. Sagina Ram	25.06.2012 (F.N.)
6.	Shri J. V. Rama Rao	27.06.2012 (A.N.)
7.	Shri Rama Kant Mishra	09.07.2012 (F.N.)
8.	Shri M. Balakrishnan	16.07.2012 (F.N.)

Their pay in the post of Superintending Senior Geophysicist will be fixed in accordance with the provisions under FR-22(I) (a) (1). The option for fixation of pay is to be exercised within one month from the date of issue of this Notification.

MOHD. NASEEM KHAN
Administrative Officer Gr. II
for Dir. Gen.

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 3rd January 2013

No. PD/11(1)/2012-R-III/2013/195—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Shashi Sridhar, Assistant as Assistant Personnel Officer in this Research Centre on ad hoc basis in the Pay band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from 23.07.2012 (FN) to 24.12.2012 (AN).

SHAILAJA PRAKASAM
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400094, the 31st December 2012

No. HWB/R/4(15)/2010/802—The President is pleased to appoint the following Officers of Heavy Water Board (Central Office)/Heavy Water Plant (Thal/Kota/Baroda/Tuticorin/Manuguru/Talcher) to the post indicated against each with effect from the forenoon of date mentioned against each in the same Office/Plant in a temporary capacity until further orders. The Pay Band and Grade Pay of the posts are also indicated below :—

Sl. No.	Name	Present Grade	Recommendation of Committee	Office/Plant	Date of Promotion to the Present Grade
1	2	3	4	5	6
	S/Shri				
1.	Rahbar Hussain	SO/D	SO/E	Thal	01.07.2011
2.	Dhirendra Singh	SO/C	SO/D	HWB (C.O.)	01.07.2011
3.	Pradeep Jain	SO/C	SO/D	HWB (C.O.)	01.07.2011
4.	Vijay Kumar Jain	SO/D	SO/E	Kota	01.07.2011
5.	Vishnu Kumar Gautam	SO/D	SO/E	Kota	01.07.2011
6.	Dilip Kumar Chatterjee	SO/D	SO/E	Kota	01.07.2011
7.	Rajender Prasad Ram	SO/D	SO/E	Kota	01.07.2011
8.	Arun Kumar Chauhan	SO/D	SO/E	Kota	01.07.2011
9.	Rajeev Sharma	SO/D	SO/E	Kota	01.07.2011
10.	Mangi Lal Parihar	SO/C	SO/D	Kota	01.07.2011
11.	Ramesh Chand Mahawar	SO/C	SO/D	Kota	01.07.2011
12.	Rameshwar Prasad Tiwari	SO/C	SO/D	Kota	01.07.2011
13.	Smt. Roma Garg	SO/C	SO/D	Kota	01.07.2011
14.	Ashok Kumar	SO/C	SO/D	Kota	01.07.2011
15.	Donthi Rajabharath	SO/C	SO/D	Kota	01.07.2011
16.	Smt. Manya Wadhwani	SO/C	SO/D	Kota	12.07.2011
17.	Aditya Prakash	SO/C	SO/D	Kota	01.07.2011
18.	Hanuman Prasad Meena	SA/E	TO/C	Kota	07.07.2011
19.	Smt. Mausumi Shukla	SO/D	SO/E	Baroda	01.07.2011
20.	Neetesh Parsai	SO/D	SO/E	Baroda	01.07.2011
21.	Vijay Chatterjee	SO/C	SO/D	Baroda	01.07.2011
22.	Anurag Dixit	SO/C	SO/D	Baroda	01.07.2011
23.	Vivekanand Ramdas Patil	SO/C	SO/D	Baroda	01.07.2011
24.	Shiba Prasad Dutta	SO/D	SO/E	Talcher	11.07.2011
25.	Dr. Bernadette Bara	SO/D	SO/E	Talcher	01.07.2011
26.	Jagannath Sahu	SO/C	SO/D	Talcher	01.07.2011
27.	Susanjit Das	SO/C	SO/D	Talcher	01.07.2011
28.	Bidyut Kumar Dutta	SO/C	SO/D	Talcher	01.07.2011
29.	Ramakant Sahoo	SO/SB	SO/C	Talcher	07.07.2011
30.	Madhu Sudan Dhar	Tech/G	TO/C	Talcher	01.07.2011

1	2	3	4	5	6
31.	William Stephen James Duria Pandian	SO/D	SO/E	Tuticorin	01.07.2011
32.	Monickam Gunaseelan Rajkumar	SO/C	SO/D	Tuticorin	01.07.2011
33.	Manappa Talwar	SA/E	TO/C	Tuticorin	01.07.2011
34.	Dr. (Smt.) Teki Santasree	SO/D	SO/E	Manuguru	01.07.2011
35.	P. A. V. Krishna	SO/D	SO/E	Manuguru	01.07.2011
36.	Devendra Kumar	SO/D	SO/E	Manuguru	01.07.2011
37.	Karnati Veerabhadram	SO/D	SO/E	Manuguru	01.07.2011
38.	Chanda Mohan	SO/D	SO/E	Manuguru	01.07.2011
39.	Kethineedi Veera Venkata Vallabha Rao	SO/D	SO/E	Manuguru	01.07.2011
40.	S. Srinivasa Raju	SO/D	SO/E	Manuguru	01.07.2011
41.	M. Chaitanya	SO/D	SO/E	Manuguru	01.07.2011
42.	Mohana Kumar Tatakuntla	SO/D	SO/E	Manuguru	01.07.2011
43.	S. Chidambaram	SO/C	SO/D	Manuguru	01.07.2011
44.	Mundayil Pisharath Vinod	SO/C	SO/D	Manuguru	01.07.2011
45.	Arun Kumar Mahapatra	SO/C	SO/D	Manuguru	01.07.2011
46.	Shashikumar Shetty	SO/C	SO/D	Manuguru	01.07.2011
47.	Malothu Saida	SO/C	SO/D	Manuguru	01.07.2011
48.	Balaga Rambabu	SO/C	SO/D	Manuguru	01.07.2011
49.	Saka Surya Rao	SO/C	SO/D	Manuguru	01.07.2011
50.	Kommula Mallesham	SO/C	SO/D	Manuguru	01.07.2011
51.	Denver Lopez	SO/C	SO/D	Manuguru	01.07.2011
52.	Anand Swarup Om	SO/C	SO/D	Manuguru	01.07.2011
53.	Sushil Kumar	SO/C	SO/D	Manuguru	01.07.2011
54.	N. Udaya Bhaskar	SO/SB	SO/C	Manuguru	01.07.2011
55.	Prasanna Venkatramanan	SO/SB	SO/C	Manuguru	01.07.2011
56.	Bolisetty Sreenivas Rao	SO/SB	SO/C	Manuguru	01.07.2011
57.	A. Srinivasa Rao	SO/SB	SO/C	Manuguru	01.07.2011
58.	Chittala Satyanarayana	SA/D	TO/C	Manuguru	01.07.2011
59.	Dasyam Nageswara Rao	SA/D	TO/C	Manuguru	01.07.2011
60.	Chelluri Sanjeevi Kumar	SA/D	TO/C	Manuguru	01.07.2011

Pay Bands :

Post	Pay Band	Grade Pay
Scientific Officer-E	PB(3) Rs. 15,600—39,100/-	Rs. 7,600/-
Scientific Officer-D	PB(3) Rs. 15,600—39,100/-	Rs. 6,600/-
Technical or Scientific Officer-C	PB(3) Rs. 15,600—39,100/-	Rs. 5,400/-

The above Officers relinquished charge of the lower posts held by them on the forenoon of date mentioned against each.

K. S. PILLAI
Admn. Officer-III

No. HWB/R/4(13)/2012/803—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/Engineers Grade 'F' in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000 + Grade Pay of Rs. 8,700/- of Heavy Water Plant (Kota/Manuguru/Talcher) as Scientific Officer/Engineer Grade 'G' in the same Pay Band with Grade Pay of Rs. 8,900/- with effect from the forenoon of the date mentioned against each in the same Office/Plant until further orders:—

Sl. No.	Name	HWP	Date of Appointment to the Promoted Grade
	S/Shri		
1.	Sukumar Bhowmik	HWP(Kota)	01.07.2012
2.	Prahalad Kumar Pareek	HWP(Kota)	01.07.2012
3.	Anil Kumar	HWP(Kota)	01.07.2012
4.	Ramashray Nath Pandey	HWP(Kota)	01.07.2012
5.	Saras Seth	HWP(Kota)	01.07.2012
6.	Baka Venkateswara Rao	HWP(Kota)	01.07.2012
7.	K. Ramulu	HWP(Manu-Guru)	01.07.2012
8.	P. Satish	HWP(Manu-Guru)	01.07.2012
9.	G. Viswanath	HWP(Manu-Guru)	01.07.2012
10.	Saumendra Kumar Mishra	HWP (Talcher)	01.07.2012

The above mentioned Officers have relinquished charge of the lower post held by them on the forenoon of the date mentioned against each.

K. S. PILLAI
Administrative Officer-III

No. HWB/R/4(14)/2012/804—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/Engineers Grade 'E' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100 + Grade Pay of Rs. 7,600/- of Heavy Water Board (Central Office)/Heavy Water Plant (Kota/Baroda/Manuguru/Tuticorin/Talcher) as Scientific Officer/Engineer Grade 'F' in the Pay Band with Grade Pay of Rs. 37,400—67,000 + Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from the forenoon of the date mentioned against each in the same Plant until further orders:—

Sl. No.	Name	HWB/HWP	Date of Appointment to the Promoted Grade
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	Ajit Ramesh Dusane	HWP(C.O.)	01.07.2012
2.	Lakshmi Narasimhan Ramaswamy	HWP(C.O.)	01.07.2012

1	2	3	4
3.	Ishwar Bhika Pawar	HWP(C.O.)	01.07.2012
4.	Hasmukhbhai Muldevbhai Mewada	HWP(Kota)	01.07.2012
5.	Shyam Narayan Singh Yadav	HWP(Kota)	01.07.2012
6.	Jeet Narain Singh	HWP(Kota)	01.07.2012
7.	Prakash Chandre Pandey	HWP(Kota)	01.07.2012
8.	Kajor Mal Bairwa	HWP(Kota)	01.07.2012
9.	Anand Kumar Sharma	HWP(Kota)	01.07.2012
10.	Manoj Kumar Bajpai	HWP(Kota)	01.07.2012
11.	G. Muralidharan	HWP(Baroda)	01.07.2012
12.	Chandrakant Shankarlal Panchal	HWP(Baroda)	01.07.2012
13.	Pukhraj Kumawat	HWP(Baroda)	01.07.2012
14.	Thangapandian Mohan	HWP(Tuticorin)	01.07.2012
15.	Nagarajan Sridhar	HWP(Tuticorin)	07.07.2012
16.	Kailasanatha Deekshithar Sankaran	HWP(Tuticorin)	01.07.2012
17.	Abdul Parith Abbas	HWP(Tuticorin)	01.07.2012
18.	Manas Ranjan Sahoo	HWP(Talcher)	01.07.2012
19.	K. S. N. Babu	HWP(Manuguru)	01.07.2012
20.	Dr. B. Dwarkanath	HWP(Manuguru)	01.07.2012
21.	Gopal Krishna Johri	HWP(Manuguru)	01.07.2012
22.	Bidyapati Patra	HWP(Manuguru)	01.07.2012
23.	Ashutosh Kaushik	HWP(Manuguru)	01.07.2012
24.	Munnaluru Upendra	HWP(Manuguru)	01.07.2012

The above mentioned Officers have relinquished charge of the lower post held by them on the forenoon of the date mentioned against each.

K. S. PILLAI
Administrative Officer-III

INDIRA GANDHI CENTRE FOR ATOMIC RESEARCH

Kalpakkam-603102, the 20th December 2012

No. IGCAR/11013/DGFS-10/2012-R/1452—The President is pleased to appoint Shri C. Vishnu in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam of Department of Atomic Energy as Scientific Officer/Engineer Grade 'C' with the initial pay of Rs. 21,000/- in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with the Grade of Rs. 5,400/- with effect from the forenoon of 01.08.2012 in a temporary capacity until further orders.

O. K. SATHIAN
Chief Administrative Officer

**ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR
EXPLORATION & RESEARCH**

Hyderabad-5600016, the 27th November 2012

No. AMD-1/2/2011-Rectt./1878—The President is pleased to appoint the under mentioned individuals as Scientific Officer "C" in the Pay Band Rs. 15,600—39,100 (PB-3) with Grade Pay of Rs. 5,400/- in Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy, with effect from the forenoon of August 1, 2012 in a temporary capacity until further orders:—

S. No.	Name
(1)	Shri Abhik Purkait
(2)	Shri Junaid Ahmad
(3)	Shri Ravi Prakash Tiwari
(4)	Shri Samiran Barman
(5)	Kum. Nabanita Mitra
(6)	Kum. Swati Pant
(7)	Shri Subodh Prakash Upadhyay
(8)	Shri Somnath Bandyopadhyay
(9)	Shri Satyaki Samanta
(10)	Shri Dibakar Ghosh
(11)	Shri Mohammad Alam
(12)	Shri Maheswara Rao Gorle
(13)	Shri Harsha Raghuvanshi
(14)	Shri Tanmaya Ranjan Bhanja
(15)	Shri Pasupuleti Venkatesh
(16)	Shri Sheik Roshan Ali
(17)	Shri Rahul Kumar Singh
(18)	Shri Annagi Vamsi Krishna
(19)	Shri Indresh Kumar
(20)	Shri Satyam

A. S. LAXMAN RAO
Chief Administrative & Accounts Officer

No. AMD-1/4/2010-Rectt./1879—The President is pleased to appoint the under mentioned individual as Scientific Officer "C" in Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy, in a temporary capacity in the Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100 + Rs. 5,400/- Grade Pay with effect from the date mentioned below until further orders:—

Name	Date of Assumption of Charge
Shri Pattipaka Naveen Kumar	01-08-2012 (F.N.)

A. S. LAXMAN RAO
Chief Administrative & Accounts Officer

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
(OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES)**

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mars Financial Advisory Services Private Limited

New Delhi-110049, the 2nd January 2013

No. 560(3)/MCA.RoC-Delhi/sec 560/2012/00218/23815—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Mars Financial Advisory Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

PREMAL BHANURAM MALIK

Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Chandigarh, the 31st December 2012

No. RoC/560(5)/FTE-2012—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Registrar and the said Companies are dissolved:—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	32996	M/s. Revolution HR Services Private Limited
2.	30393	M/s. Fobaz Foto Bazar India Private Limited
3.	31469	M/s. Orbit Immigration & Education Consultancy Private Limited
4.	21852	M/s. Kamaldeep Plastic Private Limited
5.	22456	M/s. Sita Build - Tech Private Limited
6.	31198	M/s. U B Fashions Private Limited
7.	32317	M/s. Toro Stil Glass Private Limited
8.	32488	M/s. K. C. Impex Private Limited

N. V. GAJANAN
Asstt. Registrar of Companies
Punjab & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Kolkata-700020, the 2nd January 2013

No. RoC/WB/560(FTE)/2012—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that the names of the following 21 Companies are annexed here with have this day been struck off from the Registrar and the said Companies are dissolved :—

Sl. Company No.	No.	Name of the Company
1	2	3
1.	063099	M/s. L. R. Engineering Private Limited
2.	164641	M/s. Win Hire Agency Private Limited
3.	163493	M/s. Trop Consultancy Services Private Limited
4.	088571	M/s. Ashirbad Fibres Private Limited
5.	141548	M/s. Purple Agencies Private Limited
6.	141687	M/s. Lovedale Agencies Private Limited
7.	052859	M/s. Pyromet Technology Private Limited
8.	136930	M/s. Singh Shresta Construction Private Limited
9.	124847	M/s. Purbanchal Bio-Tech Private Limited
10.	123092	M/s. Goldmine Commotrade Private Limited
11.	140577	M/s. VMV Forex Private Limited
12.	125396	M/s. Stratallig Engineer's Services Private Limited
13.	097237	M/s. A. P. U. K. India Comp Ed Private Limited
14.	107920	M/s. Megacity Packaging Private Limited
15.	095379	M/s. Kaydee Advisory Private Limited
16.	134923	M/s. Bhavya Metals Private Limited
17.	103097	M/s. Miracle Water Filters Private Limited
18.	152487	M/s. Materite Solutions Private Limited
19.	105372	M/s. NRD Commercial Private Limited
20.	150536	M/s. SCB Network Marketing Company Private Limited
21.	127255	M/s. Converso Offshore BPO Services Private Limited

D. N. CHOWDHURY
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aqua Charterers Private Limited

Panaji-403001, the 28th December 2012

No. 1342—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name

of M/s. Aqua Charterers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SUDHIR LILADHAR PHAYE
Asstt. Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Kolkata-700020, the 2nd January 2013

No. RoC/WB/560(5)/2013/945—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. Company No.	No.	Name of the Company
1	2	3
1.	000125	M/s. B. Mohanty and Co. Private Limited
2.	008687	M/s. Aryaprava Cold Storage Private Limited
3.	009952	M/s. Mahavir Allied Construction & Development Private Limited
4.	001009	M/s. Lokatantra Web Services Private Limited
5.	012287	M/s. Banjara Advertising Private Limited
6.	012290	M/s. Earth Care Traders Private Limited
7.	012295	M/s. Chandrama IT Development & Consultancy Private Limited
8.	012299	M/s. Warsia Steel Limited
9.	012300	M/s. Octagon Nirman Private Limited
10.	012303	M/s. Nandighosh financial Services Private Limited
11.	012306	M/s. Annimaax Multi Services Private Limited
12.	012312	M/s. Simo Enterprises Private Limited
13.	012315	M/s. Mass Info-Vision Private Limited
14.	012319	M/s. Next Brain Tradelink Private Limited
15.	012321	M/s. Bidyalalita Infrastructure Private Limited
16.	012327	M/s. Game Changers Private Limited
17.	0012329	M/s. Hotel Kamallesh Private Limited
18.	0012331	M/s. Sagarika Mines and Minerals Private Limited

1	2	3
19.	0012334	M/s. MS (Odisha) Syndicate Private Limited
20.	0012338	M/s. SG Realcon Private Limited
21.	0012345	M/s. Sarchis Infrastructure Private Limited
22.	0012348	M/s. Maa Santoshi Logistics Private Limited
23.	0012349	M/s. Sigmund Infratech Limited
24.	0012351	M/s. Better Telemedicine Services Private Limited
25.	0012355	M/s. Butterfly Management Services Private Limited
26.	0012368	M/s. Prabhuji Multiplex Private Limited
27.	0012375	M/s. Hera Udyog Private Limited

1	2	3
28.	0012377	M/s. Utkal Travels & Services Private Limited
29.	0012379	M/s. Smart Image Creative Technologies Private Limited
30.	0012380	M/s. Gayatri Mines & Metallics Private Limited
31.	0012382	M/s. Matrukrupa Infratech Private Limited
32.	0012383	M/s. Forex A2Z Services Private Limited
33.	0012385	M/s. Sher-e-Hind Infrastructure Private Limited
34.	0012392	M/s. Harshvardhan Ferro Alloys Limited

S. MISHRA
Registrar of Companies-cum-Official
Liquidator
Odisha

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013